



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 23] नई दिल्ली, नवम्बर 21—नवम्बर 27, 2010, शनिवार/कार्तिक 30—अग्रहायण 6, 1932
No. 23] NEW DELHI, NOVEMBER 21—NOVEMBER 27, 2010, SATURDAY/KARTIKA 30—AGRAHAYANA 6, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2010

का.नि.आ. 53.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन गेस्टेटर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) भर्ती नियम, 1989 और रक्षा मंत्रालय, सशस्त्र बल मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन (समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 1999 को जहां तक इनका संबंध ग्लेजर/ट्रिपर सहायक, रसोईया, मेस वेंटर के पदों से हैं, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों में समूह 'ग' अनुसूचिवीय अतकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय का एकीकृत मुख्यालय (सेना, नौसेना, वायुसेना), एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठन, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.—ये नियम इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान, वेतन बैंड/ग्रेड वेतन वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

6. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकती है।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

क्रम संख्या	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ज्येष्ठ बहु कार्य कर्मचारी [पूर्व गेस्टेटर ऑपरेटर (ज्येष्ठ) का पद]	22 (2010)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अतकनीकी)	वेतन बैंड-1 5200—20200 धन ग्रेड वेतन 2400 रुपए	अचयन	लागू नहीं होता
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं		परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)	(10)			
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता			

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

(12)

प्रोन्नति द्वारा

ग्रेड वेतन 1800 रु. में प्रोन्नत, ऐसा बहु कार्य कर्मचारी जिसने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो।

(12)

टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो जहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए, अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण 2: प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए, 1 जनवरी, 2006 वह तारीख जिसको छठे केंद्रीय वेतन आयोग पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तदस्थानी ग्रेड वेतन/वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

(क) उपनिदेशक/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(ख) रक्षा मंत्रालय (सेना, नौसेना, वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों से उपनिदेशक की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —पांच सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. बहु कार्य कर्मचारी [गेस्टेटर ऑपरेटर (कनिष्ठ), ज्येष्ठ चपरासी, चपरासी, दफ्तरी, प्रयोगशाला परिचर, पैकर, फैटींग मैन/श्रमिक, जमादार सफाईवाला, सफाईवाला, माली, चौकीदार, फिल्म चेंकर, सह पैकर और बूम मैन के पूर्व पद]	2213 (2010)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'ग', (अराजपत्रित, अनुसूचित, अतकनीकी)	वेतन बैंड-1 5200—20200 धन ग्रेड वेतन 1800 रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)

(8)

(9)

(10)

18 और 25 वर्ष के बीच

टिप्पण (i) : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण

लागू नहीं होता

दो वर्ष

(7)

जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

टिप्पण (ii) : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(11)

सीधी भर्ती द्वारा

(12)

लागू नहीं होता

(13)

(14)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

लागू नहीं होता।

- (क) उपनिदेशक/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और मुख्य प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष
- (ख) रक्षा मंत्रालय (सेना, नौसेना, वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों से उपनिदेशक की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —पांच सदस्य

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

- | | | | | | | |
|----|--|--|--|---|----------------|----------------|
| 3. | बहु कार्य कर्मचारी (स्वागत) (सुरक्षा अनुरक्षक श्रेणी-1, सुरक्षा अनुरक्षक श्रेणी-2 के पूर्व पद) | 70 (2010)*
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', (अराजपत्रित, अननुसचिवीय, अतकनीकी) | वेतन बैंड-1
5200—20200
धन ग्रेड वेतन
1800 रुपए | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |
|----|--|--|--|---|----------------|----------------|

(7)

(8)

(9)

(10)

18 और 25 वर्ष के बीच
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न की वह अंतिम तारीख

किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण हो

लागू नहीं होता

10 वर्ष

(7)

जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से ली जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(11)

सीधी भर्ती द्वारा
टिप्पण : पात्रता सूची, उपयुक्तता परीक्षण संचालित करने के पश्चात् सुरक्षा कार्यालय के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(12)

लागू नहीं होता

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(14)

लागू नहीं होता।

(क) उपनिदेशक/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, संयुक्त सचिव और ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का कार्यालय, रक्षा मंत्रालय —अध्यक्ष

(ख) रक्षा मंत्रालय (सेना, नौसेना, वायुसेना) के एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय के एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय और अंतर सेवा संगठनों से उपनिदेशक की प्रास्थिति का कोई अधिकारी —पांच सदस्य

[फा. सं. ए/33982/मु प्र अ/भर्ती-11]

के. एम. पी. सिंह, उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 11th November, 2010

S.R.O. 53.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisation, Gestetner Operator (Senior) Recruitment Rules, 1989 and the Ministry of Defence, Armed Forces Headquarters and Inter Service Organisation (Group 'D' posts) Recruitment Rules, 1999 except as they relate to the post of Glazer/Trimmer, Assistant Cook, Mess Waiter except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C', Non-Ministerial, Non-Technical posts in the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Integrated Defence Staff Headquarter and Inter Service Organisation, under the Ministry of Defence, namely:—

4410 GI/10-2

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Integrated Headquarters of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Integrated Defence Staff Headquarter and Inter Service Organisation, Group 'C', posts Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the Pay Scale, Pay Band/Grade Pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen, and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether Selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Senior Multi Tasking Staff (Erstwhile post of Gestetner Operator (Senior))	22* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Technical)	Pay Band-I, Rs.5200 — 20200 plus Grade Pay Rs. 1900	Non-selection	Not applicable	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits				Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any
(8)				(9)		(10)
Not applicable				Not applicable		Not applicable

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made

(11)

(12)

By promotion

Promotion : Multi Tasking Staff in the Grade Pay of Rs. 1800 with three years regular service in the grade.

Note 1 : Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee consisting of:—

Not applicable.

1. Deputy Director/Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence

—Chairman

2. An Officer of the status of Deputy Director from Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Integrated Defence Staff Headquarter and Inter Service Organisations of the Ministry of Defence

—Five Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Multi Tasking Staff (Firstwhile post of Gestetner Operator (Junior), Senior Peon, Peon, Daftry, Laboratory Attendant, Packer, Fatiguelman/Labourer, Jamadar Safaiwala, Safaiwala, Mali, Chowkidar, Film Checker-cum-Packer and Boom Man)	2213* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Technical)	Pay Band-1, Rs. 5200—20200 plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years of age. Note : (i) The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep). In case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchange is asked to submit the names.	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years

(11)	(12)
By direct recruitment.	Not Applicable
(13)	(14)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Deputy Director/Senior Administrative Officer, Office of the Joint Secretary and Chief Administrative Officer, Ministry of Defence 2. An Officer of the status of Deputy Director from Integrated Headquarter of Ministry of Defence (Army, Navy, Air), Integrated Defence Staff Headquarter and Inter Service Organisations of the Ministry of Defence	Chairman —Five Members

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Multi Tasking Staff (Reception) (Firstwhile posts of Security Escort Grade I and Grade II)	70* (2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', (Non-Gazetted, Non-Ministerial, Non-Technical)	Pay Band-I, Rs. 5200- - 20200 plus Grade Pay Rs. 1800	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)
Between 18 and 25 years of age. Note : The Crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed	Matriculation or equivalent pass from a recognised Board or University.	Not applicable	Two years

(7)

for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.

(11)

By direct recruitment.

Note : The eligibility list shall be prepared after Conducting a suitability test in consultation with Security Office.

(12)

Not Applicable

(13)

Group 'C' Departmental Promotion Committee (for confirmation)
consisting of :—

(14)

Not applicable.

1. Deputy Director/Senior Administrative Officer,
Office of the Joint Secretary and Chief Administrative
Officer, Ministry of Defence — Chairman
2. An Officer of the status of Deputy Director from
Integrated Headquarter of Ministry of Defence
(Army, Navy, Air and Headquarter Integrated
Defence Staff) and Inter Service Organisations
of the Ministry of Defence — Five Members

[F. No. A/33982/CAO/R-II]

K. M. P. SINGH, Chief Administrative Officer